



दैनिक आवर्ती जमा (Daily Recurring Deposit) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले दैनिक आवर्ती जमा के क्या लाभ हैं?

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का **दैनिक आवर्ती जमा** उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जिनकी बचत की आदतें व्यवस्थित नहीं हैं। यह ग्राहकों को प्रतिदिन छोटी राशि जमा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यवस्थित बचत को बढ़ावा मिलता है तथा जमा राशि पर ब्याज का लाभ भी प्राप्त होता है।

2. दैनिक आवर्ती जमा की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या है?

शिवालिक बैंक **दैनिक आवर्ती जमा** के लिए ६ महीने से १२ महीने तक की अनुकूलनीय अवधि प्रदान करता है।

3. दैनिक आवर्ती जमा शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि और अधिकतम राशि सीमा क्या है?

दैनिक आवर्ती जमा शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि ₹१०० है और अधिकतम प्रारंभिक जमा राशि ₹१००० है।

4. दैनिक आवर्ती जमा खाते में टॉप-अप सुविधा क्या है?

टॉप-अप सुविधा उसी **दैनिक आवर्ती जमा** खाते में उपलब्ध है, जसमें आप **अंतरिम** हस्तांतरण के माध्यम से अपनी योगदान राशि को बढ़ा सकते हैं। टॉप-अप की न्यूनतम राशि ₹१०० है और अधिकतम प्रारंभिक जमा राशि की १० गुना तक किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹१०,००० है।

5. दैनिक आवर्ती जमा (शाखा) के लिए स्कीम कोड क्या है?

दैनिक आवर्ती जमा की प्रोसेसिंग के लिए शाखा को स्कीम कोड २००९ का उपयोग करना होगा।

6. मैं दैनिक आवर्ती जमा की ब्याज दरें कहाँ देख सकता/सकती हूँ?

जमा दरें बैंक की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं और हमारे शाखाओं में भी प्रदर्शित की जाती हैं। दरें आ जांचने के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं। [click here](#).

7. क्या बैंक वरिष्ठ नागरिकों की जमा पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है?

हाँ, ६० वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को **दैनिक आवर्ती जमा** पर नियमित दरों के ऊपर अतिरिक्त ०.५० % अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान किया जाता है।

8. क्या सभी ग्राहक शाखा के माध्यम से दैनिक आवर्ती जमा खोल सकते हैं?

हाँ, सभी ग्राहक शाखा के माध्यम से **दैनिक आवर्ती जमा** खोल सकते हैं, किन्तु उनका पूर्ण KYC पूरा हो तथा **दैनिक आवर्ती जमा** उसी ग्राहक के CASA खाते से संबंधित हो।

9. दैनिक किस्तों का संग्रहण कैसे किया जाता है?

दैनिक किस्तें ग्राहक के संबंधित CASA खाते से स्थायी निर्देशों (Standing Instruction) के माध्यम स्वचालित रूप से (auto) डेबिट की जाती हैं और **दैनिक आवर्ती जमा** खाते में जमा कर दी जाती हैं।

10. यदि CASA खाते में SI निष्पादन के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है तो क्या होगा?

यदि CASA खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो दैनिक किस्त डेबिट नहीं की जाएगी। यदि यह स्थिति लगातार 15 दिनों तक बनी रहती है, तो स्थायी निर्देशों (Standing Instruction) स्वचालित रूप से (auto) निलंबित कर दिया जाएगा।



11. क्या ग्राहक दैनिक आवर्ती जमा में अतिरिक्त धनराशि जमा कर सकता है?

हाँ, पूर्ण KYC वाले ग्राहक अनुमत सीमा के भीतर टॉप-अप सुविधा के माध्यम से **दैनिक आवर्ती जमा** में अतिरिक्त धनराशि जमा कर सकते हैं।

12. क्या ग्राहक दैनिक आवर्ती जमा में दैनिक जमा राशि में परिवर्तन कर सकता है?

हाँ, ग्राहक **दैनिक आवर्ती जमा** की अवधि के दौरान अनुमत सीमा के भीतर दैनिक किस्त राशि में अधिकतम 5 बार परिवर्तन कर सकता है।

13. क्या दैनिक आवर्ती जमा पर पूर्व-पररपक्व आहरण (Premature Withdrawal) की सुविधा उपलब्ध है?

हाँ, **दैनिक आवर्ती जमा** पूर्व-पररपक्व आहरण (Premature Withdrawal) की सुविधा उपलब्ध है।

14. परिपक्वता से पूर्व दैनिक आवर्ती जमा बंद करने पर कितना ब्याज देय होगा?

यदि **दैनिक आवर्ती जमा** को परिपक्वता से पहले बंद किया जाता है, तो ब्याज उस अवधि के अनुसार देय होगा जितने समय तक जमा बैंक के पास रही है, न कि अनुबंधित ब्याज दर के अनुसार। साथ ही, 1% की समयपूर्व निकासी पेनल्टी भी लागू होगी।

15. क्या दैनिक आवर्ती जमा से आंशिक निकासी (partial withdrawal) की अनुमति है?

नहीं, **दैनिक आवर्ती जमा** की आंशिक निकासी की अनुमति नहीं है।